



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 253] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 1977/ज्येष्ठ 31, 1899

No. 253] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 1977/JYĀISTHA 31, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 21st June 1977

S.O. 406(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order, namely:—

1 **Short title and commencement.**—(1) This order may be called the Mild Steel Tubes, (excluding seamless tubes and tubes according to API specifications) (Quality Control) Order, 1977

(2) It shall come into force on 1st September, 1977

2 **Definition.**—In this order, unless the context otherwise requires—

(a) 'Mild Steel tubes' mean seamwelded including electric resistance welded, screw and socketed and plain and mild steel tubes.

(b) 'Specified standards' means the following Indian Standard Specifications as amended/revised from time to time.

S. No.	IS No.	Title
1.	1239 (Part I) 1973	Mild Steel tubes and tubulars
2.	116 -1968	Steel tubes for structural purposes (second revision)
3	4270-1967	Steel tubes used for water wells (upto 200 mm dia)

3. Prohibition of manufacture, sale etc. of Mild Steel Tubes which are not of the specified standard—No person himself or by any person on his behalf manufacture or store for sale, sell or distribute any mild steel tubes which do not conform to the specified standard and which do not bear the 'ISI' Certification Mark. Provided that nothing in this Order shall apply in relation to export of mild steel tubes which do not conform to the specified standard but conform to any specifications required by the foreign buyer.

This Department's order dated 14th December, 1976 and dated 30th March, 1977 are hereby superseded by this Order.

[No. 7(3)/71-EIM]

HARI BHUSHAN,

Adviser (Technical) & Ex Officio Jt Secy

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जून, 1977

क्र० प्रा० 406(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और आदेश:—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नरम इस्पात ट्यूब (जोड़ रहित ट्यूबों और ए० पी० आई० विनिर्देशों के अनुसार बनी ट्यूबों को अपवर्जित करते हुए) (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1976 है।

(2) यह (जिस तारीख की सिफारिश की गई है उस तारीख अर्थात् 1-1-1977 को) प्रवृत्त हो जाएगा।

2. परिभाषाएं:—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'नरम इस्पात ट्यूब' से अभिप्रेत है जोड़ वैलिडत, जिसके अन्तर्गत विद्युत प्रतिरोध वैलिडत भी है, पंचजड़े और सफोटर तथा सादे और नरम इस्पात के ट्यूब ;

(ख) 'विनिर्दिष्ट स्तर' में समय-समय पर यथामशोधित पुनरीक्षित निम्नलिखित भारतीय मानक विनिर्देश अभिप्रेत है :—

क्र०सं० आई०एस० सं०	शीर्षक
1. 1239 (भाग 1) - 1973	नरम इस्पात ट्यूब और नलिकाकार।
2. 1161—1968	संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए इस्पात के ट्यूब (द्वितीय पुनरीक्षण)।
3. 4270—1967	पानी के कुओं के लिए प्रयोग में आने वाले इस्पात के ट्यूब

3. जो नरम इस्पात के ट्यूब विनिर्दिष्ट मानक के नहीं हैं, उनके विनिर्माण, विक्रय, आदि का प्रतिषेध —कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे कि ही नरम इस्पात के ट्यूबों को, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं और जिन पर आई०एस०आई० प्रमाणन चिन्ह नहीं है, न तो विनिर्मित करेगा और न विक्रय के लिए उन्हें भण्डार में रखेगा और न ही बेचेगा या वितरित करेगा। परन्तु इस आदेश की कोई भी बात ऐसे नरम इस्पात के ट्यूबों के निर्यात के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं हैं किन्तु विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

इस आदेश के द्वारा इस विभाग के आदेश दिनांक 14-12-1976 और 30-3-1977 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

[सं० 7(3) 71-ई०आई०एम०]

हरी भूषण,

सलाहकार (तकनीकी) एवम पदेन संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

